



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2019/माघ 4, 1940

No. 316]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2019/MAGHA 4, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

का.आ. 427(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के वारंगल अर्बन जिले में NH563 के कि.मी. 95.3 से कि.मी. 116.667 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेन्यू डिविशनल अफसर, वारंगल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के वारंगल अर्बन जिले में NH563 के कि.मी. 95.3 से कि.मी. 116.667 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: वारंगल अर्बन			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: हन्मकोंडा					
गांव का नाम: पॉलिबेलपूला					
1	101	निजी	वेट	4,140.0000000(वर्ग मीटर)	0.4140000
2	102	निजी	वेट	2,595.0000000(वर्ग मीटर)	0.2595000
3	103	निजी	वेट	945.0000000(वर्ग मीटर)	0.0945000
4	106	निजी	वेट	8,370.0000000(वर्ग मीटर)	0.8370000
5	107	निजी	ड्राई	720.0000000(वर्ग मीटर)	0.0720000
6	108	निजी	वेट	240.0000000(वर्ग मीटर)	0.0240000
7	112	निजी	वेट	5,975.0000000(वर्ग मीटर)	0.5975000
8	113	निजी	वेट	10,840.0000000(वर्ग मीटर)	1.0840000
9	114	निजी	वेट	1,855.0000000(वर्ग मीटर)	0.1855000
10	115	निजी	वेट	630.0000000(वर्ग मीटर)	0.0630000
11	116	निजी	ड्राई	30,165.0000000(वर्ग मीटर)	3.0165000
12	117	निजी	ड्राई	13,505.0000000(वर्ग मीटर)	1.3505000
13	118	निजी	ड्राई	25,710.0000000(वर्ग मीटर)	2.5710000
14	119	निजी	ड्राई	840.0000000(वर्ग मीटर)	0.0840000
15	120	निजी	ड्राई	11,615.0000000(वर्ग मीटर)	1.1615000
16	125	निजी	ड्राई	7,330.0000000(वर्ग मीटर)	0.7330000
17	126	निजी	ड्राई	6,335.0000000(वर्ग मीटर)	0.6335000
18	127	निजी	ड्राई	20,925.0000000(वर्ग मीटर)	2.0925000
19	128	निजी	ड्राई	7,395.0000000(वर्ग मीटर)	0.7395000

20	129	निजी	ड्राई	12,620.0000000(वर्ग मीटर)	1.2620000
21	130	निजी	ड्राई	2,730.0000000(वर्ग मीटर)	0.2730000
22	143	निजी	वेट	1,770.0000000(वर्ग मीटर)	0.1770000
23	154	निजी	वेट	120.0000000(वर्ग मीटर)	0.0120000
24	155	निजी	ड्राई	3,505.0000000(वर्ग मीटर)	0.3505000
25	27	निजी	वेट	325.0000000(वर्ग मीटर)	0.0325000
26	28	निजी	वेट	1,440.0000000(वर्ग मीटर)	0.1440000
27	31	निजी	वेट	185.0000000(वर्ग मीटर)	0.0185000
28	90	निजी	ड्राई	13,765.0000000(वर्ग मीटर)	1.3765000
29	91	निजी	वेट	2,165.0000000(वर्ग मीटर)	0.2165000
30	92	निजी	वेट	60.0000000(वर्ग मीटर)	0.0060000
31	93	निजी	वेट	840.0000000(वर्ग मीटर)	0.0840000
32	94	निजी	वेट	4,570.0000000(वर्ग मीटर)	0.4570000
33	95	निजी	वेट	2,905.0000000(वर्ग मीटर)	0.2905000
34	96	निजी	वेट	7,185.0000000(वर्ग मीटर)	0.7185000
35	99	निजी	वेट	3,240.0000000(वर्ग मीटर)	0.3240000
तालुक का नाम: हसनपरती					
गांव का नाम: मुचेरला					
1	636	निजी	ड्राई	7,425.0000000(वर्ग मीटर)	0.7425000
2	637	निजी	वेट	2,290.0000000(वर्ग मीटर)	0.2290000
3	638	निजी	वेट	1,470.0000000(वर्ग मीटर)	0.1470000
4	649	निजी	ड्राई	11,150.0000000(वर्ग मीटर)	1.1150000
5	650	निजी	ड्राई	2,435.0000000(वर्ग मीटर)	0.2435000
6	651	निजी	ड्राई	765.0000000(वर्ग मीटर)	0.0765000
7	652	निजी	वेट	965.0000000(वर्ग मीटर)	0.0965000
8	653	निजी	वेट	7,675.0000000(वर्ग मीटर)	0.7675000
9	654	निजी	वेट	2,935.0000000(वर्ग मीटर)	0.2935000
10	655	निजी	वेट	100.0000000(वर्ग मीटर)	0.0100000

11	657	सरकारी	शिकम	90.0000000(वर्ग मीटर)	0.0090000
12	664	निजी	ड्राई	8,855.0000000(वर्ग मीटर)	0.8855000
13	665	निजी	ड्राई	9,765.0000000(वर्ग मीटर)	0.9765000
14	688	निजी	ड्राई	4,680.0000000(वर्ग मीटर)	0.4680000
15	689/1	निजी	ड्राई	3,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.3000000
16	689/2	निजी	ड्राई	4,795.0000000(वर्ग मीटर)	0.4795000
17	689/3	निजी	ड्राई	6,195.0000000(वर्ग मीटर)	0.6195000
18	694	निजी	ड्राई	560.0000000(वर्ग मीटर)	0.0560000
19	695	निजी	वेट	11,075.0000000(वर्ग मीटर)	1.1075000
20	696	निजी	ड्राई	11,590.0000000(वर्ग मीटर)	1.1590000
21	697	निजी	ड्राई	9,725.0000000(वर्ग मीटर)	0.9725000
22	698	निजी	ड्राई	14,300.0000000(वर्ग मीटर)	1.4300000
23	700	निजी	ड्राई	14,490.0000000(वर्ग मीटर)	1.4490000
24	701	निजी	ड्राई	11,475.0000000(वर्ग मीटर)	1.1475000
25	727	निजी	वेट	2,550.0000000(वर्ग मीटर)	0.2550000
26	728	निजी	वेट	3,150.0000000(वर्ग मीटर)	0.3150000
27	730	निजी	ड्राई	340.0000000(वर्ग मीटर)	0.0340000
28	731	निजी	वेट	4,225.0000000(वर्ग मीटर)	0.4225000
29	732	निजी	वेट	4,620.0000000(वर्ग मीटर)	0.4620000
30	733	निजी	वेट	5,490.0000000(वर्ग मीटर)	0.5490000
31	734	निजी	वेट	2,670.0000000(वर्ग मीटर)	0.2670000
32	735	निजी	वेट	1,650.0000000(वर्ग मीटर)	0.1650000
33	738	निजी	ड्राई	1,410.0000000(वर्ग मीटर)	0.1410000
34	753	निजी	वेट	4,245.0000000(वर्ग मीटर)	0.4245000
35	754	निजी	ड्राई	2,925.0000000(वर्ग मीटर)	0.2925000
36	ROAD	सरकारी	ड्राई	1,980.0000000(वर्ग मीटर)	0.1980000
37	ROAD	सरकारी	ड्राई	3,895.0000000(वर्ग मीटर)	0.3895000
38	ROAD	सरकारी	ड्राई	2,085.0000000(वर्ग मीटर)	0.2085000

गांव का नाम: पेम्बारथ्य					
1	376	सरकारी	शिकम	18,570.0000000(वर्ग मीटर)	1.8570000
2	389	निजी	ड्राई	8,760.0000000(वर्ग मीटर)	0.8760000
3	390	निजी	ड्राई	1,185.0000000(वर्ग मीटर)	0.1185000
4	391	निजी	ड्राई	275.0000000(वर्ग मीटर)	0.0275000
5	392	निजी	ड्राई	710.0000000(वर्ग मीटर)	0.0710000
6	393	निजी	ड्राई	13,230.0000000(वर्ग मीटर)	1.3230000
7	394	निजी	ड्राई	3,655.0000000(वर्ग मीटर)	0.3655000
8	395	निजी	ड्राई	10,000.0000000(वर्ग मीटर)	1.0000000
9	404	निजी	ड्राई	2,760.0000000(वर्ग मीटर)	0.2760000
10	424	निजी	ड्राई	1,120.0000000(वर्ग मीटर)	0.1120000
11	425	निजी	ड्राई	1,265.0000000(वर्ग मीटर)	0.1265000
12	426	निजी	ड्राई	560.0000000(वर्ग मीटर)	0.0560000
13	427	निजी	ड्राई	3,975.0000000(वर्ग मीटर)	0.3975000
14	428	निजी	ड्राई	740.0000000(वर्ग मीटर)	0.0740000
15	429	निजी	ड्राई	715.0000000(वर्ग मीटर)	0.0715000
16	435	निजी	ड्राई	120.0000000(वर्ग मीटर)	0.0120000
17	436	निजी	ड्राई	2,315.0000000(वर्ग मीटर)	0.2315000
18	437	निजी	ड्राई	3,955.0000000(वर्ग मीटर)	0.3955000
19	438	निजी	ड्राई	5,680.0000000(वर्ग मीटर)	0.5680000
20	439	निजी	ड्राई	200.0000000(वर्ग मीटर)	0.0200000
21	440	निजी	ड्राई	6,415.0000000(वर्ग मीटर)	0.6415000
22	441	निजी	ड्राई	4,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.4500000
23	442	निजी	ड्राई	1,595.0000000(वर्ग मीटर)	0.1595000
कुल				498,895.0000	49.8895

[फा. सं. NHA/PIU(WGL)/JKW/LA/2016/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2019

S.O. 427(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH563 in the stretch of land from Km 95.3 to Km 116.667 in the district of WARANGAL URBAN in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Warangal in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH563 in the stretch of land from 95.3 to k.m. 116.667 in the district of WARANGAL URBAN in the state of TELANGANA

State: TELANGANA		District: WARANGAL URBAN			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Hanamkonda					
Village: Palivelpula					
1	101	Private	WET	4,140.0000000(Square Meter)	0.4140000
2	102	Private	WET	2,595.0000000(Square Meter)	0.2595000
3	103	Private	WET	945.0000000(Square Meter)	0.0945000
4	106	Private	WET	8,370.0000000(Square Meter)	0.8370000
5	107	Private	DRY	720.0000000(Square Meter)	0.0720000
6	108	Private	WET	240.0000000(Square Meter)	0.0240000
7	112	Private	WET	5,975.0000000(Square Meter)	0.5975000
8	113	Private	WET	10,840.0000000(Square Meter)	1.0840000
9	114	Private	WET	1,855.0000000(Square Meter)	0.1855000
10	115	Private	WET	630.0000000(Square Meter)	0.0630000
11	116	Private	DRY	30,165.0000000(Square Meter)	3.0165000
12	117	Private	DRY	13,505.0000000(Square Meter)	1.3505000
13	118	Private	DRY	25,710.0000000(Square Meter)	2.5710000
14	119	Private	DRY	840.0000000(Square Meter)	0.0840000
15	120	Private	DRY	11,615.0000000(Square Meter)	1.1615000

16	125	Private	DRY	7,330.0000000(Square Meter)	0.7330000
17	126	Private	DRY	6,335.0000000(Square Meter)	0.6335000
18	127	Private	DRY	20,925.0000000(Square Meter)	2.0925000
19	128	Private	DRY	7,395.0000000(Square Meter)	0.7395000
20	129	Private	DRY	12,620.0000000(Square Meter)	1.2620000
21	130	Private	DRY	2,730.0000000(Square Meter)	0.2730000
22	143	Private	WET	1,770.0000000(Square Meter)	0.1770000
23	154	Private	WET	120.0000000(Square Meter)	0.0120000
24	155	Private	Dry	3,505.0000000(Square Meter)	0.3505000
25	27	Private	WET	325.0000000(Square Meter)	0.0325000
26	28	Private	WET	1,440.0000000(Square Meter)	0.1440000
27	31	Private	WET	185.0000000(Square Meter)	0.0185000
28	90	Private	Dry	13,765.0000000(Square Meter)	1.3765000
29	91	Private	Wet	2,165.0000000(Square Meter)	0.2165000
30	92	Private	Wet	60.0000000(Square Meter)	0.0060000
31	93	Private	Wet	840.0000000(Square Meter)	0.0840000
32	94	Private	wet	4,570.0000000(Square Meter)	0.4570000
33	95	Private	Wet	2,905.0000000(Square Meter)	0.2905000
34	96	Private	Wet	7,185.0000000(Square Meter)	0.7185000
35	99	Private	wet	3,240.0000000(Square Meter)	0.3240000
Taluk: Hasanparthy					
Village: Mucherla					
1	636	Private	DRY	7,425.0000000(Square Meter)	0.7425000
2	637	Private	WET	2,290.0000000(Square Meter)	0.2290000
3	638	Private	WET	1,470.0000000(Square Meter)	0.1470000
4	649	Private	DRY	11,150.0000000(Square Meter)	1.1150000
5	650	Private	DRY	2,435.0000000(Square Meter)	0.2435000
6	651	Private	DRY	765.0000000(Square Meter)	0.0765000
7	652	Private	WET	965.0000000(Square Meter)	0.0965000
8	653	Private	WET	7,675.0000000(Square Meter)	0.7675000
9	654	Private	WET	2,935.0000000(Square Meter)	0.2935000
10	655	Private	WET	100.0000000(Square Meter)	0.0100000
11	657	Government	SHIKAM	90.0000000(Square Meter)	0.0090000
12	664	Private	DRY	8,855.0000000(Square Meter)	0.8855000
13	665	Private	DRY	9,765.0000000(Square Meter)	0.9765000
14	688	Private	DRY	4,680.0000000(Square Meter)	0.4680000

15	689/1	Private	DRY	3,000.0000000(Square Meter)	0.3000000
16	689/2	Private	DRY	4,795.0000000(Square Meter)	0.4795000
17	689/3	Private	DRY	6,195.0000000(Square Meter)	0.6195000
18	694	Private	DRY	560.0000000(Square Meter)	0.0560000
19	695	Private	WET	11,075.0000000(Square Meter)	1.1075000
20	696	Private	DRY	11,590.0000000(Square Meter)	1.1590000
21	697	Private	DRY	9,725.0000000(Square Meter)	0.9725000
22	698	Private	DRY	14,300.0000000(Square Meter)	1.4300000
23	700	Private	DRY	14,490.0000000(Square Meter)	1.4490000
24	701	Private	DRY	11,475.0000000(Square Meter)	1.1475000
25	727	Private	WET	2,550.0000000(Square Meter)	0.2550000
26	728	Private	WET	3,150.0000000(Square Meter)	0.3150000
27	730	Private	DRY	340.0000000(Square Meter)	0.0340000
28	731	Private	WET	4,225.0000000(Square Meter)	0.4225000
29	732	Private	WET	4,620.0000000(Square Meter)	0.4620000
30	733	Private	WET	5,490.0000000(Square Meter)	0.5490000
31	734	Private	WET	2,670.0000000(Square Meter)	0.2670000
32	735	Private	WET	1,650.0000000(Square Meter)	0.1650000
33	738	Private	DRY	1,410.0000000(Square Meter)	0.1410000
34	753	Private	WET	4,245.0000000(Square Meter)	0.4245000
35	754	Private	DRY	2,925.0000000(Square Meter)	0.2925000
36	ROAD	Government	DRY	1,980.0000000(Square Meter)	0.1980000
37	ROAD	Government	DRY	3,895.0000000(Square Meter)	0.3895000
38	ROAD	Government	DRY	2,085.0000000(Square Meter)	0.2085000
Village: Pembrathy					
1	376	Government	SHIKAM	18,570.0000000(Square Meter)	1.8570000
2	389	Private	DRY	8,760.0000000(Square Meter)	0.8760000
3	390	Private	DRY	1,185.0000000(Square Meter)	0.1185000
4	391	Private	DRY	275.0000000(Square Meter)	0.0275000
5	392	Private	DRY	710.0000000(Square Meter)	0.0710000
6	393	Private	DRY	13,230.0000000(Square Meter)	1.3230000
7	394	Private	DRY	3,655.0000000(Square Meter)	0.3655000
8	395	Private	DRY	10,000.0000000(Square Meter)	1.0000000
9	404	Private	DRY	2,760.0000000(Square Meter)	0.2760000
10	424	Private	DRY	1,120.0000000(Square Meter)	0.1120000
11	425	Private	DRY	1,265.0000000(Square Meter)	0.1265000

12	426	Private	DRY	560.0000000(Square Meter)	0.0560000
13	427	Private	DRY	3,975.0000000(Square Meter)	0.3975000
14	428	Private	DRY	740.0000000(Square Meter)	0.0740000
15	429	Private	DRY	715.0000000(Square Meter)	0.0715000
16	435	Private	DRY	120.0000000(Square Meter)	0.0120000
17	436	Private	DRY	2,315.0000000(Square Meter)	0.2315000
18	437	Private	DRY	3,955.0000000(Square Meter)	0.3955000
19	438	Private	DRY	5,680.0000000(Square Meter)	0.5680000
20	439	Private	DRY	200.0000000(Square Meter)	0.0200000
21	440	Private	DRY	6,415.0000000(Square Meter)	0.6415000
22	441	Private	DRY	4,500.0000000(Square Meter)	0.4500000
23	442	Private	DRY	1,595.0000000(Square Meter)	0.1595000
Total				498,895.0000	49.8895

[F. No. . NHAI/PIU(WGL)/JKW/LA/2016/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.